

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT <i>(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)</i>	
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF PSR METALS PRIVATE LIMITED	
RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of Corporate Debtor	PSR Metals Private Limited
2. Date of incorporation of Corporate Debtor	30/06/2010
3. Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	ROC Kanpur
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	CIN: U27310UP2010PTC041205
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Off: 7th Floor Tower-1, Unit No.- 1701 Express Trade Tower-2 B-36 Sector- 132, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh-201301, India. Works: 362/2, Village Hussainpur Bopada, Begrajpur Industrial Area, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, INDIA- 251003
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	26.05.2025 (Order received on 28.05.2025)
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	22.11.2025
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Pramod Kumar Sharma IBBI/IPA-002/IP-N00110/2017-18/ 10258
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	H. No-16, Dasharath Kunj-B West Arjun Nagar, Agra, Uttar Pradesh-282001. pksharmafcs@gmail.com cirp.psmetals@gmail.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	H. No-16, Dasharath Kunj-B West Arjun Nagar, Agra, Uttar Pradesh-282001. cirp.psmetals@gmail.com
11. Last date for submission of claims	11.06.2025
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NA
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	NA
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	https://ibbi.gov.in/en/home/downloads


Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **M/s. PSR Metals Private Limited** on 26.05.2025.

The creditors of **M/s. PSR Metals Private Limited**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 11.06.2025 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Pramod Kumar Sharma
Interim Resolution Professional
IBBI/IPA-002/IP-N00110/2017-18/10258

Date: 28.05.2025
Place: Agra, Uttar Pradesh.



INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD.
Regd.Office:- Plot-15,6th Floor, Sec-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana-122002

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY

Branch Add. E-44 ground floor sector 3, noida near sector 16 metro station and multilevel parking. noida

Whereas, The Undersigned Being The Authorised Officer Of The India Shelter Finance And Corporation Ltd,Under The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement (security) Interest Act,2002 And In Exercise Of Power Conferred Under Section 13(2) And 13(12) Read With Rule Of The Security Interest (enforcement) Rules,2002,issued A Demand Notice On The Date Noted Against The Account As Mentioned Hereinafter, Calling Upon The Borrower And Also The Owner Of The Property/surety To Repay The Amount Within 60 Days From The Date Of The Said Notice. Whereas The Owner Of The Property And The Other Having Failed To Repay The Amount, Notice Is Hereby Given To The Under Noted Borrowers And The Public In General That The Undersigned Has Taken Possession Of The Property/ies Described Herein Below In Exercise Of The Powers Conferred On Him/her Under Section 13(4) Of The Said Act Read With Rules 8 & 9 Of The Said Rules On The Dates Mentioned Against Each Account. Now, The Borrower In Particular And The Public In General Is Herby Cautioned Not To Deal With The Property/ies And Any Dealing With The Property/ies Will Be Subject To The Charge Of India Shelter Finance Corporation Ltd For An Amount Mentioned As Below And Interest Thereon, Costs, Etc.

Name of the Borrower/ Guarantor(Owner Of The Property) & Loan Account Number	Description Of The Charged/ mortgaged Property (All The Part & Parcel Of The Property Consisting Of)	Dt.of Demand Notice, Amount Due As On Date Of Demand Notice	Date Of Possession
MR./ MRS. RAJNI RAGHAV W/O KALU, MR./ MRS. Kalu S/O OMVEER SINGH At: Alampur Alampur Shahpur Faraula Ghaziabad Uttar Pradesh 254101 Also At, Khasra No. 123, Gram Alampur, Pargana Hapur, Tehsil, Dhaulana, District HapurUttar Pradesh 250001 (Loan Account No. LA11VLLONS000005093131/AP-10218672)	All Piece And Parcel Of Khasra No. 123, Area 226.66 Sq Gaj, Gram Alampur,Pargana Hapur, Tehsil Dhaulana, District Hapur Uttar Pradesh 250001, BOUNDARY:- East-23Ft Wide Road, West-House Of Omprakash, North-15Ft Road, South-House Of Yogender Singh	Demand Notice :11.12.2024 Rs. 10,09,974/- (Rupees Ten Lakh Nine Thousand Nine Hundred Seventy Four Only Due As On 10-Dec-2024 Together With The Interest From 11-Dec-2024 & Other Charges & Cost Till The Date Of The Payment.	26.05.2025 Symbolic

Place: DELHI/NCR Date: 30.05.2025 For India Shelter Finance Corporation Ltd (Authorized Officer)

For Any Query Contact Authorized Officer: -For Any Query Please Contact Mr. Sudhir Tomar (+91 9818460101)

RATHI BARS LIMITED
Regd. Office: A-24/7, Mohan Co-operative Indl. Estate, New Delhi-110017
Ph.: +91-11-42760373, Web: www.rathisteels.com, E-mail: rathibars@hotmail.com
CIN No: L74899DL1993PLC054781

Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2025
(All amounts in Rs. Lacs unless otherwise stated)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31-03-2025	31-12-2024	31-03-2024	31-03-2024
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1 Total Revenue From operations	13,959.32	11,053.00	13,743.69	49,770.59
2 Net Profit/Loss for the Period (Before Tax)	106.59	88.59	123.34	351.60
3 Net Profit/Loss for the Period (After Tax)				256.56
4 Total Comprehensive Income	106.59	88.59	123.34	256.56
5 Equity Share Capital	1,633.04	1,633.04	1,633.04	1,633.04
6 Reserves(Excluding Revaluation Reserves)				8,015.96
7 Earning Per Share(of Rs. 10 Each)				7,759.40
Basic :	0.65	0.54	0.76	1.57
Diluted :	0.65	0.54	0.76	1.57

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange's websites i.e. www.bseindia.com and also at the website of the Company at www.rathisteels.com.
2 The Company does not have any Exceptional and Extraordinary item to report during the above periods.
3 The Company has not discontinued any of its operations during the above periods.
4 Tax expenses / Provision for Taxation has been made on annual basis only.
5 The figures of previous year / Quarters have been re-arranged/re-grouped wherever felt necessary.



By order of the Board for Rathi Bars Limited
Sd/-
Anurag Rathi
(Managing Director)
DIN: 00063345

Place: New Delhi
Date : 29/05/2025

FORM NO. RSC-4
(PURSUANT TO RULE 3(3) OF THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL (PROCEDURE FOR REDUCTION OF SHARE CAPITAL OF COMPANY) RULES, 2016)
BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
NEW DELHI COURT-IV (SPECIAL BENCH)
COMPANY PETITION NO. 207 (ND) OF 2024
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013 (18 OF 2013) - SECTION 66
AND
IN THE MATTER OF REDUCTION OF SHARE CAPITAL
AND
IN THE MATTER OF
KIAT INDIA INTERNATIONAL CLOTHING PRIVATE LIMITED
.....Petitioner Company

PUBLICATION OF NOTICE
A petition under Section 66 of the Companies Act, 2013 for confirming the reduction of share capital of the Company was presented by KIAT India International Clothing Private Limited having its registered office at 1352-G, Street No. 13, Gobind Puri, Kalkaji, New Delhi-110019 on the 30th day of September, 2024, and the said petition is fixed for hearing before the New Delhi Court-IV (Special Bench) of the National Company Law Tribunal, New Delhi on 28th July, 2025.
The reduction of share capital as proposed by the Petitioner Company is in the following manner:
1. The Company proposes to reduce 4,90,000 Equity Shares of ₹10/- each aggregating to ₹49,00,000/- which constitute approximately 98% of the total paid-up equity share capital. This reduction is proposed on account of surplus funds available with the Company and the decision of the Board and Shareholders to return excess capital not required for current operations.
2. Upon the reduction becoming effective, the paid-up capital of the Company shall stand reduced from ₹50,00,000 (5,00,000 Equity Shares of ₹10/- each) to ₹1,00,000 (10,000 Equity Shares of ₹10/- each).
3. It is respectfully submitted that there are no creditors of the company.
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed reduction of capital and who intends to support or oppose the said petition may send a notice of such intention, together with the grounds of opposition or a copy of their affidavit, to the undersigned Advocate for the Petitioner. Such notice should contain the name and address of the person and of his/her authorised representative, if any, and must reach the undersigned no later than two days before the date fixed for the hearing, i.e., on or before 26th July, 2025. This notice is in pursuance to and in compliance with the order of the Hon'ble Tribunal dated 27th May, 2025 made in the company petition.
Dated this 29th day of May, 2025

(Sd/-)
Ratnesh Kumar Awasthi, Advocate
Advocate for the Petitioner Company
F-1/33, Dayapur Extn., Delhi-110094
Email: awasthi10292@gmail.com

CLIX CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
CIN: U65929DL1994PTC116256
Regd. Office: W2/14, First Floor, West Patel Nagar, New Delhi- 110008
Telephone: +91-120 6465400 | Website: www.clix.capital

(INR In lacs)

EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31 MARCH 2025

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		31-Mar-25	31-Dec-24	31-Mar-25
				Audited
1	Total Income from Operations	23,820	24,428	1,00,491
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,866	2,082	11,325
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,866	2,082	11,325
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,363	1,528	8,441
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,103	1,440	8,172
6	Paid up Equity Share Capital	1,52,953	1,43,599	1,52,953
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	88,425	66,341	88,425
8	Securities Premium Account	22,950	10,304	22,950
9	Net worth	2,41,378	2,09,940	2,41,378
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	4,51,644	4,15,385	4,51,644
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA
12	Debt Equity Ratio	1.87	1.98	1.87
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) (for continuing and discontinued operations)* - Basic:	0.09	0.11	0.56
	Diluted:	0.09	0.10	0.54
	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
15	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

*Quarter end Basic EPS and Diluted EPS are not annualised

Note 1: The above results for the quarter ended 31 March 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 28 May 2025, in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

Note 2: The above is an extract of the detailed format of the quarter ended results filed with the National Stock Exchange ("NSE") under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the website of National Stock Exchange (www.nseindia.com) and is also available on the Company's website www.clix.capital.

Note 3: For the items referred to in the sub-clauses of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange and can be accessed on www.nseindia.com.

Note 4: During the financial year ended 31 March 2023, the Board of Directors of the Company had approved a Scheme of Amalgamation ("the Scheme") for Amalgamation of its wholly owned subsidiary Clix Housing Finance Limited (CHFL) into the Company. The Company approached all the stakeholders including Reserve Bank of India (RBI) were approached for No objection for the same. RBI had vide its letter dated October 27, 2022 and January 31, 2023 given its no objection for the Company & CHFL, respectively. The management of both the Companies have re-initiated the process of Amalgamation and the Board of Directors had in their respective meetings held on October 10, 2024 (Clix Capital Services Private Limited) and October 23, 2024 (CHFL) approved the revised Scheme (revised to the extent of change in Appointed Date and other factual changes). All the regulators have been accordingly informed. In the meantime the management of CHFL, post discussions with regulators and as approved by its Directors, has submitted business plan to National Housing Bank (NHB) for revival of the business.

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

(INR In lacs)

S. No.	Particulars	Year ended	
		31-Mar-25	31-Mar-24
		Audited	Audited
1	Total Income from Operations	1,03,123	93,342
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10,643	8,200
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10,643	8,200
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7,756	6,065
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,484	5,857
6	Paid up Equity Share Capital	1,52,953	1,43,599
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	87,636	65,897
8	Securities Premium Account	22,950	10,304
9	Net worth	2,40,589	2,09,496
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	4,52,872	4,17,146
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA
12	Debt Equity Ratio	1.88	1.99
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) (for continuing and discontinued operations) - Basic:	0.51	0.42
	Diluted:	0.49	0.41
	Capital Redemption Reserve	NA	NA
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA
15	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA

Note 1: The above financial results for the year ended 31 March 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 28 May 2025, in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

Note 2: The above is an extract of the detailed format of the year ended results filed with the National Stock Exchange ("NSE") under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the website of National Stock Exchange (www.nseindia.com) and is also available on the Company's website www.clix.capital.

Note 3: For the items referred to in the sub-clauses of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange and can be accessed on www.nseindia.com.

Note 4: During the financial year ended 31 March 2023, the Board of Directors of the Company had approved a Scheme of Amalgamation ("the Scheme") for Amalgamation of its wholly owned subsidiary Clix Housing Finance Limited (CHFL) into the Company. The Company approached all the stakeholders including Reserve Bank of India (RBI) were approached for No objection for the same. RBI had vide its letter dated October 27, 2022 and January 31, 2023 given its no objection for the Company & CHFL, respectively. The management of both the Companies have re-initiated the process of Amalgamation and the Board of Directors had in their respective meetings held on October 10, 2024 (Clix Capital Services Private Limited) and October 23, 2024 (CHFL) approved the revised Scheme (revised to the extent of change in Appointed Date and other factual changes). All the regulators have been accordingly informed. In the meantime the management of CHFL, post discussions with regulators and as approved by its Directors, has submitted business plan to National Housing Bank (NHB) for revival of the business.

For and on behalf of the Board of Directors

Clix Capital Services Private Limited

Rakesh Kaul

Whole-time Director

Place: Gurugram

Date: 28 May 2025

G D L LEASING AND FINANCE LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC057107
Reg. Office: 206 VARDHMAN DIAMOND PLAZA, MOTIA KHAN, PAHARGANJ, DELHI-110055
E-mail: gdgroup@yahoo.com, Website: www.gdl-finance.com

STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31 MARCH, 2025 (Amount in Lakh) except for equity share data

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year ended	
		31.03.2025	31-12-2024	31.03.2024	31.03.2024
		Audited	Unaudited	Audited	Audited
	Revenue from Operations				
a	Interest Income	14.66	16.24	9.46	87.56
b	Dividend Income	-	-	-	-
c	Rental Income	-	-	-	-
d	Fees and Commission Income	12.90	5.17	9.45	30.28
e	Sale of Products	-	-	-	-
f	Sale of Service	-	-	-	-
(i)	Total Revenue from Operations	27.56	21.41	18.92	117.84
(ii)	Other Income	-	-	-	0.03
(iii)	Total Income (i+ii)	27.56	21.41	18.92	117.84
	Expenses				
a	Total of Material Consumed	-	-	-	-
b	Finance cost	1.90	1.16	0.031	4.466
c	Impairment of Financial Instruments	-	-	-	-
d	Employee benefit expense	0.10	4.20	2.90	15.37
e	Depreciation and amortisation expense	0.34	-	-	0.43
f	Fees and Commission Expenses	1.73	1.67	0.66	7.93
g	Other expenses	19.34	7.94	2.37	35.98
(iv)	Total Expenses	23.41	14.97	5.96	64.17
(v)	Profit before tax (iii-iv)	4.15	6.44	12.96	53.67
(vi)	Tax expense:				
a	Current tax	2.43	1.75	3.62	15.41
b	Deferred tax	(0.04)	-	0.01	(0.04)
c	Taxes relating to prior years	-	-	-	-
(vii)	Net Profit / Loss for the period	1.77	4.69	9.328	38.30
(viii)	Other Comprehensive Income				
a	(i) Items that will not be reclassified to profit or loss	-	-	-	-
	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassifies to profit or loss	-	-	-	-
b	(i) Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-
	(ii) Income tax relating to items that will be reclassifies to profit or loss	-	-	-	-
	Other Comprehensive Income (viii)				
(ix)	Total Comprehensive Income for the period (vii+viii)	1.77	4.69	9.328	38.30
(x)	Paid-up Equity Share Capital (Rs. 10 per share)	501.01	301.01	301.01	501.01
(xi)	Reserve & Surplus (i.e. other equity)	97.31	65.55	28.71	97.31
(xii)	Earning per equity share (Face Value of Rs. 10 each)				
a	Basic (Rs.)	0.06	0.16	0.31	0.76
b	Diluted (Rs.)	0.06	0.16	0.31	0.76



For and Behalf of the board of directors
GDL Leasing and Finance Limited
Sd/-
Prem Kumar Jain
Managing Director
DIN: 01151409

Date : 29.05.2025
Place : New Delhi

GRM OVERSEAS LIMITED
CIN:L74899DL1995PLC064007
Regd. Off:128, FIRST FLOOR, SHIVA MARKET PITAMPURA North Delhi-110034
Email Id: investor.relations@grmrice.com Website:www.grmrice.com Ph-011-47330330 Fax No: 011-0180-2653673

"Extract of Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2025 [Items of Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]"

(Amount in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter Ended Mar 31, 2025	Quarter Ended Dec. 31, 2024	Quarter Ended Mar 31, 2024	Year Ended Mar 31, 2025	Year Ended Mar 31, 2024	Quarter Ended Mar 31, 2025	Quarter Ended Dec. 31, 2024	Quarter Ended Mar 31, 2024	Year Ended Mar 31, 2025	Year Ended Mar 31, 2024
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	24,281.70	24,450.99	36,544.35	91,314.68	1,18,582.93	29,138.66	37,124.42	40,593.24	1,34,819.28	1,31,244.18
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,262.48	1,612.04	1,917.60	6,988.51	6,735.72	2,895.41	1,878.22	2,669.79	8,474.17	8,045.77
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,262.48	1,612.04	1,917.60	6,988.51	6,735.72	2,895.41	1,878.22	2,669.79	8,474.17	8,045.77
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,585.62	1,194.70	1,567.91	5,100.22	5,138.82	2,047.69	1,354.16	2,116.53	6,123.63	6,071.90
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,584.52	1,187.93	1,571.57	5,099.10	5,150.46	2,013.86	1,417.36	1,786.54	6,075.86	5,707.96
6	Total Comprehensive Income Attributable to Non Controlling Interest						2.57	24.99	66.77	64.07	93.78
7	Total Comprehensive Income Attributable to Controlling Interest						2,011.31	1,392.37	1,719.76	6,011.79	5,614.17
8	Paid Up Equity Share Capital (Face Value per share Rs. 2/-)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
9	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -										
	1. Basic:	2.64	1.99	2.61	8.50	8.56	3.41	2.26	3.53	10.21	10.12
	2. Diluted:	2.30	1.73	2.61	7.38	8.56	2.96	1.96	3.53	8.87	10.12

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and financial year ended 31st March, 2025 filed with Stock Exchanges under the Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full formats of quarterly /annual Financial results are available on the stock exchange website i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.grmrice.com.




For GRM OVERSEAS LIMITED
Sd/-
Atul Garg
Managing Director
DIN: 02380612

Place: Panipat, Date: 28.05.2025

epaper.financialexpress.com

New Delhi

REGAL ENTERPRISES LTD				
Regd. Off: Shop No G-2 Plot No 5, Kohli Plaza Block-CU Market, Pitampura, Delhi-110034				
CIN: L73100DL1989PLC269075				
Email ID: regalentpriseslimited@gmail.com, Website: www.regalentpriseslimited.com				
Extract of Audited Financial Results for the Quarter and financial year ended 31st March, 2025				
Sl. No.	Particulars	3 months ended 31.03.2025	Corresponding 3 months ended 31.03.2024	12 months ended 31.03.2025
1	Total Income from Operations	0.00	0.00	0.00
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and Exceptional Items)	1.43	-4.46	0.74
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	1.43	-4.46	0.74
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Excepional Items)	1.43	-4.46	0.74
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)	1.43	-4.46	0.74
6	Equity Share Capital	316.48	316.48	316.48
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-19.02
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each):			
1.	Basic (Rs.):	0.05	-0.14	0.02
2.	Diluted (Rs.):	0.05	-0.14	0.02
Note:				
a) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 28th May 2025				
b) The Statutory Auditors of the Company have carried out the audit of said standalane financial results for the quarter and year ended 31st March, 2025, in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditors have issued an audit reports an unmodified opinion on these financial results.				
c) Previous year's/spend's figures have been regrouped/ rearranged, wherever required				
d) The Audited Standalone financial results of the Company for the Quarter and year ended on 31st March, 2025 are also available on website of MSEI Limited (www.msei.in) and website of the Company (www.regalentpriselimited.com)				
For REGAL ENTERPRISES LTD				
Sd/-				
FIRDAUS				
Director				
Place: Delhi				
Date: 28th May, 2025				
DIN: 10650301				

	पंजीकृत ए/डी एवं दस्ती एवं चिपकाकर तथा ड्रम बजाकर और प्रकाशन तथा डीआरटी परिसरों के नोटिस बोर्ड पर							
	बिक्री उद्घोषणा							
	कार्यालय वसूली अधिकारी-I.							
	ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली							
चौबी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001								
टी.आर.सी. नं. 68/2022		दिनांक : 04.09.2023						
बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आवयवर्धनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा								
मैसर्स ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड								
बनाम								
मैसर्स हाटलाइन सीपीटी लिमिटेड एवं अन्य								
1. ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी.केलकर मार्ग, आर.जी.गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई-400026 जिसकी शाखा यूनिट नंबर 206-207, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंबा रोड, दिल्ली-110001 में है।								
बनाम								
1. मैसर्स हॉटलाइन सीपीटी लिमिटेड और अन्य , 241 ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज-III, नई दिल्ली-110001 (एन.सी.केलकर मार्ग)।								
इसके अलावा:-जीबीएउ3 विसीजी इंडस्ट्रियल मानानुर भिंड, मध्य प्रदेश-477117।								
2. श्री अनिल गुप्ता (भुगतक) , एलआर श्री अनुरा गुप्ता (निदेशक) के माध्यम से निवासी 5/17 शांति निकेतन नई दिल्ली-110021								
साथ ही पता:- 143 सागर विहार कॉलोनी न्यू हाई कोर्ट रोड सिटी ग्यालियर, मध्य प्रदेश-474011 साथ ही पता:- 42 संकेतर 8 गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301								
जैसा कि आप पौनसली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली द्वारा निर्गत ओए नं. 975/2018 में आवेष्टित वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार आपको और ककारा र.1177,61,11,170.00 (रुपये ग्यारह ली सतरार करोड़ इकस लाख ग्यारह हजार एक सौ सतर मा) तथा प्रमाणपत्र के अनुसार इस ओए. 975/2018 के दखित करने की तिथि से 16.50% वार्षिक साधारण दर से ब्याज का भुगतान करने में विफल रहे हैं जो बकाया हो गया है।								
तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।								
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि स्थान आदेश की अनुपस्थिति में 09.07.2025 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच यदि जरूरी हुआ बन्द होने के पूर्व अन्तिम 5 मिनटों में स्वतः विस्तार उपबन्ध के साथ) ई- नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति को बिक्री की जाएगी तथा यह सभी मैसर्स ई-प्रोकोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अक्षय टावर, प्रधान कार्यालय : बी-705, वाल स्ट्रीट-क्यू ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत), सचिवालय सफेद मोबाइल : 926562618/926562821/079-68136842/6869, ई-मेल : support@auctiontiger.net तथा ramprasa@auctiontiger.net वेब पोर्टल : https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से अनलाइन प्रतियोग ले सकते हैं। सम्पर्क व्यक्ति: राम शर्मा (मो.) 8000223297 के माध्यम से सम्पर्क की जायेगी।								
किसी भी प्रकार की पुछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण करने के इच्छुक बोलोदाता सूत्री शिक्षा कादयन, वरिष्ठ प्रबंधक, एम. 9811527752 ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नंबर 206-207, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंबा रोड, दिल्ली-110001, ई-मेल- sasf.recovery@omkaraarc.com से सम्पर्क कर सकते हैं।								
यह बिक्री नीचे अनुसूची में नामित उपरोक्त प्रतिवातियों की संपत्ति को होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देवतार एवं दावे, जो प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।								
ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसका बिक्री के सिलसिले में कोई कर्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोलो लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम,1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा ओगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।								
संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती,त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।								
1. सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य तथा ईएमडी का विवरण निम्नलिखित है :								
<table><tr><th>क्र.सं.</th><th>सम्पत्ति का विवरण</th><th>आरक्षित मूल्य ज.घ.रा.</th></tr><tr><td>1</td><td>सम्पत्ति सं. ए-7, सेक्टर-5, नोएडा, जिला गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301</td><td>₹. 10,49,27,400/- ₹. 1,04,92,740/-</td></tr></table>			क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य ज.घ.रा.	1	सम्पत्ति सं. ए-7, सेक्टर-5, नोएडा, जिला गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301	₹. 10,49,27,400/- ₹. 1,04,92,740/-
क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य ज.घ.रा.						
1	सम्पत्ति सं. ए-7, सेक्टर-5, नोएडा, जिला गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301	₹. 10,49,27,400/- ₹. 1,04,92,740/-						



सम्पत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी।

- यह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायगी ₹. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोईविवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
- उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपायज्य होता है तथा ऐसा कर्नायावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
- ऊपर उल्लिखित ईएमडी का भुगतान 04.07.2025 तक रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में पेश देडी/पे आर्डर मुरखन्द लिफाफे में जमा करना होगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विवरण नहीं किया जाएगा।
- बोली आवेदन के साथ पैर काई की प्रति, निवात के प्रमाण तथा पचाचन के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रमाण की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद के मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा इसमें चुक करने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी। कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पत्रित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अहर्मी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइनल तथा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त लिखित तर्क पहुंच जाय तथा उसकी भूल कोणी, रिकवरी अधिकारी-डी आरटी-कम्प्ल दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
- सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
- सफल/उच्चतम बोलीदाता को सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व अन्तिम संविदा राशि का 75% जमा करना होगा। यदि 15वें दिन दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंककार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में वर्णित के अनुसार निर्धारित माध्यम में। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त क्रेता को ₹. 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क रजिस्टार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय डेडी द्वारा रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III के पास जमा करना होगा।
- सम्पावित बोलीदाताओं के लिए निरीक्षण हेतु सम्पत्ति 01.07.2025 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक खुली रहेगी। उपर्युक्त अधिकृत प्राधिकारी सम्पावित क्रेताओं द्वारा निरीक्षण की आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
- निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चुक के मामले में विक्रय के व्यय को डेऊं करने के पश्चात, यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझता है तो जमा विनियम सरकार के पास बन्द कर ली जायेगी और चुककर्ता क्रेता का सम्पत्ति अथवा उसके भाग या बेची जाने वाली सम्पत्ति से वाद में प्राप्त होने वाली राशि पर सभी प्रकार का दावा समाप्त हो जायेगा।
- संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है' आधार पर की जा रही है।
- अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपपुनष्ट पावे हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भीसमय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। इस चरण तक अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में सम्पत्तियों के विरुद्ध किसी राजस्व/ऋणभार या दावे का विवरण नहीं है। किन्तु सम्पावित बोलीदाताओं को ईएमडी जमा करने से पूर्व अपने हित में विचिनी/पाणी/गृह कर या किसी अन्य ऋणभार आदि के सम्बन्ध में अपना ड्यू डिलिजेंस करने की सलाह दी जाती है।
- असफल सचिवालय/रंरों को अपनी ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुमवाई की निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पचाचन प्रमाण के साथ एक आवेदन करने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है जिसे तदनुसार आरसी की अनुमति अनुसार अनुसूची/परवर्ती तिथि पर वापस किया जायेगा।
- सीएच बैंक को यहाँ दिये गये विवरण के प्रमाण और जांच का निर्देश दिया जाता है।

मेरे हाथ से तथा मुद्रा लगाकर 23 मई, 2025 को दी गई।

(जय बर्धन)
रिकवरी अधिकारी-I,
डीआरटी-III, दिल्ली

मुहर

	ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून भारत सरकार, वित्त नगरपाल, (वित्तीय सेवा विभाग) द्वितीय तह, पारस टॉवर, भाजरा सहायनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171
	प्रकाशन सूचना ओ.ए. संख्या 580/2024
ऋण वसूली एवं दिवाल्यापान अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब-सेक्शन (4) संपादित उप नियम (2ए) के नियम 6 समथ-समथ पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रीसीजर) नियम 1993 के अधीन समन	
डायरी नं० 485/2025	
दिनांक : 26.05.2025	
बैंक ऑफ बड़ोदा बनाम स्वर्गाय सुभाष चन्द्र शर्मा एवं अन्य।	
सेवा में,	

- स्वर्गाय सुभाष चंद्र शर्मा अपने ज्ञात कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से-
 - श्रीमती शांति देवी पत्नी स्वर्गाय सुभाष चंद्र शर्मा निवासी ग्राम धुखपुर, पोस्ट-पदमपुर सुखरो, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल-246149।
 - श्री बसंत कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गाय सुभाष चंद्र शर्मा निवासी ग्राम धुखपुर, पोस्ट-पदमपुर सुखरो, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल-246149।
 - (बी) श्री हरीश कुमार पुत्र स्वर्गाय सुभाष चंद्र शर्मा निवासी ग्राम धुखपुर, पोस्ट-पदमपुर सुखरो, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल- 246149।
- (प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 2 का कानूनी उत्तराधिकारी)
- श्री प्रमोद कुमार पुत्र स्वर्गाय होरो सिंह निवासी 165, सिमलचौड़, पदमपुर सुखरो, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल-246149।
 - श्रीमती लक्ष्मी भारती पत्नी श्री ओम प्रकाश भारती निवासी ग्राम 101, सिमलचौड़, पदमपुर सुखरो, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल-246149।

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध **₹. 26,32,161.24/-** की वसूली हेतु **आवेदन सं० 580 / 2024** संस्थित किया है, जिसमें माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली और दिवाल्यापान अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के तहत समन / नोटिस जारी करने की कृपा की और **22.05.2025** को माननीय पीठासली अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक **30.07.2025, प्रातः 10:30 बजे** को स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत एजेंट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों। इसके अलावा, आपको यह दिखाने की आवश्यकता है कि ओए० में दी गई राहत की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और सेट में एक पैपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में और यदि कोई हो, तो सभी दस्तावेजों और शपथ पत्रों के तहत अपने बचाव में दायर करें। व्यक्तिगत रूप से या इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस ट्रिब्यूनल में आपके अधिवक्त अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सेट ऑफ, काउंटर क्लेम के लिए आपका बचाव या दावा प्रस्तुत करें।

सूचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चुक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

दिनांक **26 मई, 2025** के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार
रजिस्टार, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

नौरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड					
CIN No. : L27100DL1989PLC021811					
पंजीकृत कार्यालय : 6160 /41 /34 चौधरी बाजार, गली पेटी बजार्, इंदौर नई, सारन बाजार, दिल्ली-110006					
कोर्पोरेट कार्यालय : 18, जी.टी. रोड, गाँवसिवाव, उत्तर प्रदेश-201002					
ई मेल आईडी : nirajspatindustries@gmail.com, वेबसाइट : www.nirajspat.in					
31 मार्च, 2025 की समन तिमाही के लिए लेखापरीक्षा वित्तीय परिणामों का विवरण					
भाग I	(लाख रुपये)				
विवरण	समाप्त तिमाही 1 / समाप्त मासु वर्ष	समाप्त वर्ष 1 तिमाही	वित्ति तक वर्ष के आंकड़ों / समाप्त मासु वर्ष	वित्तिमास वर्ष समाप्त	
नीचे नोट देखें					
1. परिचालन से कुल आय	127.14	106.29	477.89	408.33	
2. अन्वेषी के विवे शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विशेष एवं /अथवा असाधारण मदों के बाद)	50.98	43.26	178.35	110.20	
3. कर से पूर्व अन्वेषी के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशेष एवं /अथवा असाधारण मदों के बाद)	50.98	43.26	178.35	110.20	
4. कर से बाद अन्वेषी के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशेष एवं /अथवा असाधारण मदों के बाद)	29.98	40.61	133.57	81.02	
5. अन्वेषी हेतु कुल व्यापक आय (अन्वेषी हेतु कुल के बाद) लाभ / (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	29.98	40.61	133.57	81.02	
6. इतिहासी योग कुल आय	60.00	60.00	60.00	60.00	
7. आरक्षित (पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलना पूर्व के अनुसार पुनर्गणित) अन्वेषी के अतिरिक्त अन्वेषी के अतिरिक्त अन्वेषी	1,236.99	1,236.99	1,236.99	1,236.99	
8. अन्य अति शेष (रु.10/- – प्रति को) (जहाँ तक आवश्यक प्रमाणों के लिए)					
1. मुद्र	5.00	6.77	22.26	13.50	
2. उत्तर	5.00	6.77	22.26	13.50	

- वित्तीय:-
- उक्त वित्तीय परिणामों को ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 26 मई, 2025 को आयोजित उम्मीक बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।
 - 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों की कम्पनी के वार्षिकिक ऑडिटरों द्वारा समीक्षा की गई है। वार्षिकीय ऑडिटरों ने अ-संशोधित अभिमत व्यक्त किये हैं।
 - इस परिणामों के कम्पनी (वित्तीय सेवा विभाग) नियम, 2015 के नियम 3 तथा उसके बाद संशोधित संशोधन के साथ प्रवृत्त कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्मित रूप में भारतीय सेवा कक्षा (बोर्डिंग-ई-एस) के अनुसार तैयार किया गया है।
 - कम्पनी किसी दस्तावे के निर्माण के व्यवस्थाप में है, अंतः आईएनडी-एएस-108-प्रचलन खंड के अनुसार विवरण देने काय कोषल एक खंड है।
 - आरक्षित (पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलना पूर्व के अनुसार पुनर्गणित) अन्वेषी के अलावे पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में वित्तीय जानकारी और विवरण, 2024 को समाप्त नई माहों के अलेखापरीक्षित प्रकाशित आंकड़ों के बीच अंतर को दर्शाते हैं।
 - जहाँ भी जरूरी हुआ, पूर्व अन्वेषी के आंकड़ें पुनर्समीकृत / पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

कुत्ते नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
हस्ता /	
नाम : वैतन्य चौधरी	
पदनाम : निदेशक एवं सीओ	
टीआरटी : 28.05.2025	
स्थान : दिल्ली	
06813394	

फॉर्म ए
सारजिकित सूचना
[भारतीय दिवाला और दिवाल्यापान बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के तहत]

पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण	
1. कॉर्पोरेट देनदार का नाम	पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2. कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	30/06/2010
3. प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है।	आरओसी कानपुर
4. कॉर्पोरेट पचाचन संख्या / कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देवता पचाचन संख्या	सीआईएन: U27310UP2010PTC041205
5. कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	7वीं मंजिल टावर-1, यूनिट नं.-1701, एक्सप्रेस ट्रेड टावर-2, बी-36 सेक्टर-132, गीतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, भारत। कॉर्पोरेट 362/2, गांव हरीनपुर, नोएडा, बेगमपुरा औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत-251003
6. कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवाल्यापान प्रारंभ होने की तारीख	26.05.2025 (28.05.2025 को आदेश प्राप्त हुआ)
7. दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तारीख	22-11-2025
8. अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	प्रमोद कुमार शर्मा IBBI/IPA-002/UP-N00110/2017-18/ 10258
9. अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल, जैसा कि बोर्ड के पास पंजीकृत है।	महान नंबर-16, दशरथ कुंज-बी स्ट्रेट अर्जुन नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश-282001। pksharmafcs@gmail.com cirp.psmetals@gmail.com
10. अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पचाचनार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	महान नंबर-16, दशरथ कुंज-बी स्ट्रेट अर्जुन नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश-282001 के साथ पचाचन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पता और ई-मेल : cirp.psmetals@gmail.com
11. दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	11-06-2025
12. अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा धारा 21 की उपधारा (ए) के खंड (डी) के तहत लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई हों, सुनिश्चित की गई हैं।	लागू नहीं
13. किसी वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पचाचन पर दिवाला पेशेवरों के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14. (ए) प्रासंगिक प्रश्न और (डी) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है।	https://ibbi.govin/home/downloads
<p>एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने 26.05.2025 को मैसर्स पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। मैसर्स पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से अग्रुव है कि वे प्रविष्टि संख्या 10 के समक्ष उल्लिखित पाठ पर अंतिम समाधान पेशेवर को 11.06.2025 को या उससे पहले अपने दावे प्रमाण सहित प्रस्तुत करें।</p> <p>वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाण सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण सहित दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।</p> <p>दावे के झूठे या भ्रमक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।</p>	
हस्ता / _____ प्रमोद कुमार शर्मा अंतरिम समाधान पेशेवर IBBI/IPA-002/UP-N00110/2017-18/10258	
दिनांक: 30.05.2025 स्थान: आगरा, उत्तर प्रदेश।	